

प्ररूप 20

अंतिम परिणाम पत्र

(नियम 56 ग 2(ग) देखिए)

12-टोंक मवाईमाधोपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचन

भाग - 1

(संसदीय एवं विधानसभा दोनों निर्वाचनों के लिए उपयोग में लाया जाए)

विधानसभा खण्ड का नाम (संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन की दशा में) 91 वामनवास

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र/खण्ड में निर्वाचकों की कुल संख्या 245210

मतदान केंद्र की क्रम संख्या	निम्नलिखित के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या											कुल विधिमान्य मत	प्रतिक्षेपित मतों की संख्या (परीक्षण मत)	इनमें से कोई नहीं (नोटा) विकल्प के लिए मत	योग	निविदत मतों की कुल संख्या
	प्रहलाद माली	सुखबीर सिंह जौनापुरीया	हरीश चन्द्र मीना	गणेश मीणा	जगदीश प्रसाद मीना	जगदीश प्रसाद शर्मा	दुली चन्द सैनी	विजेन्द्र	गिरांज प्रसाद मीना	जसराम मीना	मक्खन लाल मीना					
1	30	120	358	7	0	1	0	2	4	1	2	525	0	5	530	0
2	9	169	419	6	1	1	1	0	1	1	2	610	0	1	611	0
3	7	63	553	9	1	0	3	4	1	2	0	643	0	1	644	0
4	10	210	270	1	2	0	2	3	0	1	2	501	0	0	501	0
5	12	179	380	4	1	0	1	4	3	1	2	587	0	6	593	0
6	21	218	358	3	0	0	0	1	1	1	4	607	0	3	610	0
7	5	177	256	4	1	1	0	0	1	3	3	451	0	2	453	0
8	16	44	342	7	1	2	1	5	1	2	3	424	0	4	428	0
9	7	168	271	3	2	0	1	2	2	4	2	462	0	7	469	0
10	11	117	348	7	3	1	1	4	4	7	2	505	0	4	509	0



11	10	45	373	4	0	0	0	2	1	0	0	435	0	7	442	0
12	11	334	222	3	1	0	1	4	9	4	3	592	0	8	600	0
13	8	210	248	1	0	1	1	4	3	3	3	482	0	2	484	0
14	7	407	122	3	2	1	0	2	2	3	5	554	0	9	563	0
15	6	49	302	1	1	0	0	0	0	1	3	363	0	0	363	0
16	8	163	432	6	2	0	0	2	4	2	2	621	0	2	623	0
17	4	299	252	4	1	2	1	1	1	3	1	569	0	4	573	0
18	12	48	619	9	0	0	0	3	2	3	1	697	0	6	703	0
19	12	220	562	9	0	1	2	3	1	1	1	812	0	10	822	0
20	7	163	196	5	1	0	2	3	2	0	5	384	0	8	392	0
21	8	23	500	3	0	1	1	4	2	1	3	546	0	0	546	0
22	9	82	721	18	1	0	0	5	1	2	2	841	0	2	843	0
23	13	324	123	6	2	0	1	0	1	1	1	472	0	1	473	0
24	6	439	156	7	1	3	1	1	4	2	3	623	0	8	631	0
25	4	248	315	6	0	0	0	1	0	2	2	578	0	4	582	0
26	10	393	166	1	0	0	0	4	3	7	1	585	0	9	594	0
27	8	264	355	3	1	0	0	1	2	5	2	641	0	3	644	0
28	6	84	387	9	2	0	0	4	2	2	0	496	0	2	498	0
29	12	201	327	10	1	1	0	1	1	2	5	561	0	8	569	0
30	11	317	195	5	1	0	1	2	1	2	3	538	0	9	547	0
31	8	354	256	4	0	0	0	1	0	2	0	625	0	7	632	0
32	5	134	359	3	1	0	0	0	4	1	1	508	0	1	509	0
33	10	108	187	6	0	0	0	2	1	1	0	315	0	3	318	0
34	13	161	563	4	1	0	1	1	1	1	1	747	0	5	752	0
35	12	232	389	9	2	2	1	2	0	0	1	650	0	10	660	0
36	12	249	187	8	1	1	1	5	3	3	6	476	0	7	483	0
37	9	171	500	2	0	1	1	4	3	2	0	693	0	4	697	0
38	13	70	756	9	0	0	0	3	2	3	3	859	0	3	862	0
39	3	44	426	7	0	1	1	0	0	1	0	483	0	2	485	0
40	6	192	154	1	0	1	0	2	3	1	3	363	0	3	366	0

M

41	4	69	276	1	0	1	1	0	0	0	1	353	0	1	354	0
42	2	87	431	4	0	1	0	1	0	2	3	531	0	2	533	0
43	5	58	396	2	1	0	1	0	1	2	1	467	0	3	470	0
44	10	35	380	2	0	0	0	1	1	2	0	431	0	1	432	0
45	12	122	420	5	1	1	2	4	2	3	2	574	0	2	576	0
46	5	42	299	4	0	0	0	2	0	2	1	355	0	1	356	0
47	6	390	97	4	2	1	1	4	2	1	0	508	0	7	515	0
48	6	116	141	1	2	2	0	1	0	0	2	271	0	0	271	0
49	4	184	202	1	1	0	1	1	2	0	3	399	0	2	401	0
50	13	118	252	3	1	1	1	5	0	1	1	396	0	3	399	0
51	2	167	361	4	1	0	0	1	1	2	5	544	0	3	547	0
52	12	271	48	1	0	0	0	1	2	2	1	338	0	2	340	0
53	19	233	304	7	2	3	1	4	1	3	1	578	0	2	580	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	5	51	724	5	1	0	0	0	0	0	0	786	0	3	789	0
56	8	117	589	6	1	1	1	1	0	1	3	728	0	4	732	0
57	4	168	549	4	1	0	0	1	0	1	1	729	0	3	732	0
58	14	467	197	4	1	0	1	0	0	3	1	688	0	6	694	0
59	12	484	80	0	1	0	0	1	1	2	1	582	0	6	588	0
60	29	323	243	0	0	0	0	0	2	0	0	597	0	3	600	0
61	9	258	354	9	1	0	1	2	1	2	1	638	0	4	642	0
62	30	295	275	4	0	0	0	1	0	2	2	609	0	3	612	0
63	35	443	255	2	3	1	0	0	1	1	0	741	0	3	744	0
64	4	44	257	10	0	1	1	1	2	1	1	322	0	0	322	0
65	4	118	158	1	0	0	0	0	1	1	3	286	0	1	287	0
66	17	212	291	9	2	1	0	1	0	4	4	541	0	7	548	0
67	6	128	374	5	0	0	1	2	4	4	2	526	0	11	537	0
68	11	122	606	11	0	1	1	0	0	3	1	756	0	0	756	0
69	11	143	172	1	2	4	0	1	1	1	1	337	0	3	340	0
70	10	23	417	4	0	0	0	1	1	1	1	458	0	4	462	0

~

71	4	229	93	2	1	0	1	0	0	0	4	334	0	3	337	0
72	11	214	394	8	1	1	0	0	1	2	1	633	0	6	639	0
73	3	28	281	3	0	0	0	1	1	1	0	318	0	3	321	0
74	8	478	51	2	0	0	0	1	1	1	2	544	0	6	550	0
75	9	419	161	7	1	0	0	4	1	3	1	606	0	2	608	0
76	6	137	205	0	0	0	0	1	3	1	1	354	0	2	356	0
77	5	461	72	1	0	1	1	0	0	4	3	548	0	12	560	0
78	10	249	347	11	1	0	0	3	1	0	2	624	0	4	628	0
79	3	145	374	4	1	1	0	0	2	1	1	532	0	5	537	0
80	9	301	200	6	2	1	1	0	1	3	1	525	0	6	531	0
81	4	290	326	3	1	1	0	5	2	5	4	641	0	6	647	0
82	3	119	205	5	1	2	2	0	2	1	1	341	0	6	347	0
83	8	116	388	2	0	2	0	3	2	1	1	523	0	13	536	0
84	11	253	128	2	0	4	1	0	2	2	1	404	0	6	410	0
85	18	121	282	7	1	1	0	2	0	6	1	439	0	7	446	0
86	19	343	112	3	1	0	0	1	0	0	1	480	0	5	485	0
87	19	196	154	1	1	0	0	4	0	0	0	375	0	2	377	0
88	34	240	126	5	1	0	1	0	0	1	2	410	0	2	412	0
88A	25	73	365	11	0	1	0	1	1	0	0	477	0	1	478	0
89	5	210	275	8	0	0	0	0	1	1	1	501	0	2	503	0
90	17	162	475	3	1	1	2	6	7	2	1	677	0	5	682	0
91	5	48	459	7	0	1	2	2	2	0	0	526	0	1	527	0
92	16	450	186	8	3	1	2	2	3	5	3	679	0	13	692	0
93	11	119	297	6	1	1	1	4	2	2	3	447	0	3	450	0
94	18	202	276	11	6	1	2	1	4	5	6	532	0	16	548	0
95	9	414	98	1	1	0	1	2	0	4	4	534	0	6	540	0
96	2	341	73	5	0	0	2	1	1	0	3	428	0	9	437	0
97	6	441	98	2	0	0	2	1	2	3	0	555	0	1	556	0
98	9	430	153	5	1	1	2	3	6	3	6	619	0	4	623	0
99	11	318	29	5	0	3	0	1	3	1	1	372	0	4	376	0

M

100	8	461	69	2	0	1	2	1	1	2	1	548	0	1	549	0
101	9	437	202	1	2	0	0	0	0	1	0	652	0	7	659	0
102	5	33	425	9	1	0	0	0	0	4	3	480	0	9	489	0
103	11	343	209	4	0	1	0	5	3	2	1	579	0	2	581	0
104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	4	95	315	2	0	0	0	4	0	0	0	420	0	0	420	0
106	1	232	184	3	0	0	0	1	1	0	2	424	0	1	425	0
107	4	64	524	2	1	0	0	2	1	0	0	598	0	2	600	0
108	1	94	560	6	1	0	0	5	3	1	4	675	0	3	678	0
109	8	56	487	6	0	0	0	0	2	2	1	562	0	2	564	0
110	8	270	225	4	1	1	0	3	0	0	3	515	0	2	517	0
111	5	67	555	6	2	1	2	9	4	4	2	657	0	6	663	0
112	10	280	332	1	0	3	3	3	1	5	7	645	0	8	653	0
113	6	195	389	6	1	1	0	2	1	2	1	604	0	8	612	0
114	5	68	572	5	2	0	1	0	2	1	2	658	0	4	662	0
115	7	193	311	8	1	1	0	0	1	1	1	524	0	4	528	0
116	5	374	191	7	1	0	1	0	1	1	3	584	0	2	586	0
117	2	211	419	5	1	0	0	2	1	2	3	646	0	4	650	0
118	7	264	268	2	1	1	0	0	1	3	3	550	0	11	561	0
119	7	295	242	6	1	0	1	0	2	1	3	558	0	3	561	0
120	14	422	95	2	0	1	3	5	0	6	4	552	0	11	563	0
121	7	119	384	7	1	2	3	5	1	4	1	534	0	4	538	0
122	2	111	465	5	1	1	0	1	1	1	0	588	0	2	590	0
123	3	417	155	3	0	1	0	1	0	0	2	582	0	3	585	0
124	4	81	502	5	2	2	0	0	0	0	1	597	0	4	601	0
125	19	54	379	6	1	0	1	11	3	4	3	481	0	2	483	0
126	2	34	573	3	0	0	0	0	1	0	1	614	0	2	616	0
127	7	18	585	0	0	0	0	0	0	0	0	610	0	0	610	0
128	5	115	477	6	1	0	0	3	1	1	1	610	0	2	612	0
129	6	79	329	4	0	1	1	2	2	1	2	427	0	1	428	0

M

130	3	136	199	4	0	1	0	3	2	0	1	349	0	1	350	0
131	1	30	309	4	1	0	1	1	1	0	0	348	0	0	348	0
132	4	38	547	3	0	1	0	0	0	0	1	594	0	1	595	0
133	9	72	407	7	1	1	0	0	2	4	1	504	0	3	507	0
134	6	304	174	4	1	2	2	0	1	1	3	498	0	2	500	0
135	2	358	200	5	0	1	0	0	2	3	0	571	0	5	576	0
136	11	40	416	3	1	0	0	0	2	1	1	475	0	2	477	0
137	4	63	574	6	0	0	0	1	0	3	8	659	0	0	659	0
138	2	36	471	6	0	0	0	0	1	3	0	519	0	1	520	0
139	4	31	375	4	1	1	0	0	4	2	3	425	0	1	426	0
140	3	171	173	1	0	0	0	3	0	0	0	351	0	2	353	0
141	5	147	314	8	0	1	1	0	0	1	0	477	0	1	478	0
142	5	152	578	0	0	0	1	0	3	5	2	746	0	7	753	0
143	6	203	449	6	0	0	3	6	0	2	1	676	0	0	676	0
144	4	169	279	1	1	2	1	0	2	2	1	462	0	13	475	0
145	8	132	382	10	2	1	0	2	1	4	3	545	0	3	548	0
146	1	144	217	2	0	0	1	1	0	2	0	368	0	4	372	0
147	3	19	779	8	1	0	1	3	1	3	2	820	0	4	824	0
148	8	29	503	8	0	0	0	0	1	2	1	552	0	6	558	0
149	7	63	654	4	1	0	0	2	0	7	0	738	0	3	741	0
150	2	48	525	4	1	0	0	0	1	1	0	582	0	0	582	0
151	1	278	239	0	1	0	0	0	2	0	0	521	0	1	522	0
152	5	280	228	3	0	1	0	2	0	0	1	520	0	1	521	0
153	6	86	310	8	1	0	0	10	1	2	0	424	0	4	428	0
154	1	46	753	10	3	0	2	1	0	2	1	819	0	5	824	0
155	6	344	39	2	1	0	0	0	2	1	2	397	0	2	399	0
156	7	464	81	3	0	0	0	2	1	0	4	562	0	1	563	0
157	9	189	224	4	1	0	1	2	1	2	0	433	0	1	434	0
158	7	60	236	3	0	0	1	2	2	0	3	314	0	6	320	0
159	4	190	257	4	0	2	0	0	1	0	0	458	0	6	464	0

M

160	3	182	235	1	1	0	1	0	0	1	1	425	0	2	427	0
161	3	67	450	2	1	1	0	0	0	0	0	524	0	0	524	0
162	4	250	196	2	1	0	0	0	2	1	5	461	0	10	471	0
163	4	209	373	4	0	0	0	3	0	1	1	595	0	1	596	0
164	0	336	201	2	0	0	2	1	1	2	2	547	0	2	549	0
165	10	308	311	3	0	0	1	1	0	3	2	639	0	5	644	0
166	20	298	283	7	0	1	0	0	2	0	2	613	0	4	617	0
167	10	343	132	3	1	0	0	2	2	1	1	495	0	3	498	0
168	5	188	184	0	1	0	0	1	1	1	0	381	0	1	382	0
169	7	480	129	1	0	0	0	0	0	1	0	618	0	0	618	0
170	6	45	409	2	0	0	0	3	2	0	0	467	0	2	469	0
171	5	68	513	2	1	0	0	1	0	2	1	593	0	5	598	0
172	8	373	185	3	1	0	0	2	1	3	2	578	0	5	583	0
173	5	201	168	4	1	1	0	2	0	2	4	388	0	2	390	0
174	3	476	50	1	0	0	0	1	1	1	3	536	0	3	539	0
175	5	497	38	2	2	2	0	1	0	3	3	553	0	8	561	0
176	10	232	221	6	0	1	2	0	2	0	1	475	0	0	475	0
177	4	377	141	4	1	0	1	2	5	1	3	539	0	4	543	0
178	11	451	96	3	2	0	0	1	0	0	3	567	0	2	569	0
179	7	114	209	4	0	1	1	0	3	1	2	342	0	2	344	0
180	5	53	621	4	0	0	0	0	0	1	0	684	0	1	685	0
181	4	143	291	7	0	0	0	0	0	0	0	445	0	4	449	0
182	6	305	154	4	0	0	0	0	0	0	0	469	0	1	470	0
183	6	87	729	10	2	0	1	0	3	1	7	846	0	0	846	0
184	4	50	474	4	0	0	0	2	4	1	1	540	0	3	543	0
185	6	88	872	4	2	0	1	0	3	2	0	978	0	3	981	0
186	2	40	280	2	0	0	0	2	0	1	0	327	0	5	332	0
187	4	445	105	4	1	0	0	0	0	2	1	562	0	2	564	0
188	4	252	201	4	0	2	0	0	2	0	1	466	0	5	471	0
189	3	449	91	4	1	0	0	1	2	0	2	553	0	3	556	0

M

190	11	489	54	5	1	0	1	2	0	4	7	574	0	9	583	0
191	9	502	68	2	3	1	0	0	5	6	1	597	0	14	611	0
192	10	199	332	9	1	0	1	3	4	1	1	561	0	2	563	0
193	3	447	130	3	1	2	1	1	3	4	4	599	0	3	602	0
194	11	105	224	0	0	0	1	0	0	0	1	342	0	1	343	0
195	7	281	94	6	0	1	0	0	0	0	2	391	0	2	393	0
196	9	131	684	8	0	0	0	2	3	0	0	837	0	4	841	0
197	12	100	307	6	0	1	1	2	4	3	0	436	0	2	438	0
198	4	353	134	7	2	2	3	1	2	2	1	511	0	5	516	0
199	4	205	334	6	2	1	0	0	0	2	0	554	0	2	556	0
200	3	126	488	6	1	0	0	0	0	2	3	629	0	1	630	0
201	5	42	554	2	0	0	0	1	0	4	1	609	0	1	610	0
202	3	457	125	5	1	1	0	0	2	0	3	597	0	3	600	0
203	9	54	543	3	2	0	2	3	2	2	1	621	0	0	621	0
204	5	72	418	6	2	0	1	0	0	0	0	504	0	0	504	0
205	10	74	560	7	1	0	1	5	1	0	1	660	0	1	661	0
206	6	149	322	7	0	3	0	1	0	0	1	489	0	1	490	0
207	8	83	686	5	1	0	0	3	2	2	1	791	0	3	794	0
208	1	29	485	5	0	0	0	1	1	0	0	522	0	0	522	0
209	6	805	59	0	0	0	2	2	1	1	1	877	0	6	883	0
210	6	30	505	2	1	4	0	4	3	1	0	556	0	1	557	0
211	0	23	362	0	0	0	0	2	0	0	0	387	0	1	388	0
212	1	47	156	4	0	0	0	0	3	1	1	213	0	1	214	0
213	1	23	377	5	0	1	0	1	0	1	0	409	0	0	409	0
214	1	29	668	0	0	0	0	0	0	0	2	700	0	0	700	0
215	1	144	277	1	0	0	0	0	0	1	1	425	0	2	427	0
216	26	321	137	2	0	1	0	1	2	0	6	496	0	0	496	0
217	12	252	244	4	0	1	1	0	3	1	1	519	0	3	522	0
218	5	321	364	5	2	1	1	1	2	3	5	710	0	1	711	0
219	5	134	381	4	0	2	0	1	1	3	4	535	0	2	538	0

Me

220	5	67	354	2	0	0	0	2	1	1	0	432	0	1	433	0
221	3	56	494	6	0	0	1	2	1	1	1	565	0	2	567	0
222	1	248	235	5	1	0	1	0	3	0	1	495	0	3	498	0
223	4	61	421	2	1	1	0	5	1	1	0	497	0	1	498	0
224	4	216	246	8	1	1	2	1	1	1	1	482	0	2	484	0
225	4	184	386	5	2	0	2	1	0	1	0	585	0	3	588	0
226	8	82	486	7	0	0	3	0	1	5	2	594	0	8	602	0
227	4	340	300	5	2	0	1	1	1	0	0	654	0	1	655	0
228	11	171	461	5	0	1	1	6	1	0	0	657	0	1	658	0
229	3	240	170	3	1	0	0	0	1	0	1	419	0	3	422	0
230	6	316	298	3	0	1	2	1	1	2	3	633	0	1	634	0
231	7	12	681	4	0	0	0	0	2	1	1	708	0	1	709	0
232	1	514	23	0	0	0	1	1	2	1	6	549	0	5	554	0
233	8	280	468	5	1	1	2	1	1	1	0	768	0	2	770	0
234	4	63	373	5	1	2	0	2	0	0	4	454	0	0	454	0
235	3	539	130	3	0	0	3	1	2	2	2	685	0	2	687	0
236	4	309	67	2	0	0	0	0	0	0	3	385	0	1	386	0
237	6	111	265	3	0	0	0	0	1	2	1	389	0	2	391	0
238	6	40	552	12	2	0	1	2	2	0	27	644	0	7	651	0
मतदान केन्द्रों पर अभिलिखित मतों की कुल संख्या	1804	47415	75875	1049	176	135	142	373	324	386	425	128104	0	833	128937	0
डाक मतपत्रों पर अभिलिखित मतों की संख्या																

M

(विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन की दशा में भरा जावे)																	
डाले गए कुल मत	1804	47415	75875	1049	176	135	142	373	324	386	425	128104	0	833	128937	0	

स्थान : राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ,टोंक

तारीख : 04 जून 2024

सहायक रिटर्निंग अधिकारी
(ए.एस.डी.एम.) बामनवास

रिटर्निंग अधिकारी
(डॉ. सी.एम. झा)
रिटर्निंग ऑफिसर
लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र
टोंक-सवाईमाधोपुर (12)

Form 20

Final result sheet

[See rule 56C 2(C)]

Final result sheet

Election to the House of the People from the 12-Tonk Sawaimadhopur Parliamentary constituency.

Part I

(To be used both for Parliamentary and Assembly elections)

Name of the Assembly segment (in the case of election from a Parliamentary constituency) 91-BAMANWAS

Total No. of electors in Assembly constituency/segment -245210

Serial No of Polling Station	No. of valid votes cast in favour of											Total of valid votes	No. of rejected votes (Test Votes)	Votes for 'NOTA' option	Total	Total No. of Tendered Votes
	Prah alad mali	Sukhbir singh jaunapuria	Harish chandra meena	Ganesh meena	Jagdish prasad meena	Jagdish prasad sharma	Duli chand saini	Vijendra	Girraj prasad meena	Jasram meena	Makhan lal meena					
1	30	120	358	7	0	1	0	2	4	1	2	525	0	5	530	0
2	9	169	419	6	1	1	1	0	1	1	2	610	0	1	611	0
3	7	63	553	9	1	0	3	4	1	2	0	643	0	1	644	0
4	10	210	270	1	2	0	2	3	0	1	2	501	0	0	501	0
5	12	179	380	4	1	0	1	4	3	1	2	587	0	6	593	0
6	21	218	358	3	0	0	0	1	1	1	4	607	0	3	610	0

32	5	134	359	3	1	0	0	0	4	1	1	508	0	1	509	0
33	10	108	187	6	0	0	0	2	1	1	0	315	0	3	318	0
34	13	161	563	4	1	0	1	1	1	1	1	747	0	5	752	0
35	12	232	389	9	2	2	1	2	0	0	1	650	0	10	660	0
36	12	249	187	8	1	1	1	5	3	3	6	476	0	7	483	0
37	9	171	500	2	0	1	1	4	3	2	0	693	0	4	697	0
38	13	70	756	9	0	0	0	3	2	3	3	859	0	3	862	0
39	3	44	426	7	0	1	1	0	0	1	0	483	0	2	485	0
40	6	192	154	1	0	1	0	2	3	1	3	363	0	3	366	0
41	4	69	276	1	0	1	1	0	0	0	1	353	0	1	354	0
42	2	87	431	4	0	1	0	1	0	2	3	531	0	2	533	0
43	5	58	396	2	1	0	1	0	1	2	1	467	0	3	470	0
44	10	35	380	2	0	0	0	1	1	2	0	431	0	1	432	0
45	12	122	420	5	1	1	2	4	2	3	2	574	0	2	576	0
46	5	42	299	4	0	0	0	2	0	2	1	355	0	1	356	0
47	6	390	97	4	2	1	1	4	2	1	0	508	0	7	515	0
48	6	116	141	1	2	2	0	1	0	0	2	271	0	0	271	0
49	4	184	202	1	1	0	1	1	2	0	3	399	0	2	401	0
50	13	118	252	3	1	1	1	5	0	1	1	396	0	3	399	0
51	2	167	361	4	1	0	0	1	1	2	5	544	0	3	547	0
52	12	271	48	1	0	0	0	1	2	2	1	338	0	2	340	0
53	19	233	304	7	2	3	1	4	1	3	1	578	0	2	580	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	5	51	724	5	1	0	0	0	0	0	0	786	0	3	789	0
56	8	117	589	6	1	1	1	1	0	1	3	728	0	4	732	0

u

82	3	119	205	5	1	2	2	0	2	1	1	341	0	6	347	0
83	8	116	388	2	0	2	0	3	2	1	1	523	0	13	536	0
84	11	253	128	2	0	4	1	0	2	2	1	404	0	6	410	0
85	18	121	282	7	1	1	0	2	0	6	1	439	0	7	446	0
86	19	343	112	3	1	0	0	1	0	0	1	480	0	5	485	0
87	19	196	154	1	1	0	0	4	0	0	0	375	0	2	377	0
88	34	240	126	5	1	0	1	0	0	1	2	410	0	2	412	0
88A	25	73	365	11	0	1	0	1	1	0	0	477	0	1	478	0
89	5	210	275	8	0	0	0	0	1	1	1	501	0	2	503	0
90	17	162	475	3	1	1	2	6	7	2	1	677	0	5	682	0
91	5	48	459	7	0	1	2	2	2	0	0	526	0	1	527	0
92	16	450	186	8	3	1	2	2	3	5	3	679	0	13	692	0
93	11	119	297	6	1	1	1	4	2	2	3	447	0	3	450	0
94	18	202	276	11	6	1	2	1	4	5	6	532	0	16	548	0
95	9	414	98	1	1	0	1	2	0	4	4	534	0	6	540	0
96	2	341	73	5	0	0	2	1	1	0	3	428	0	9	437	0
97	6	441	98	2	0	0	2	1	2	3	0	555	0	1	556	0
98	9	430	153	5	1	1	2	3	6	3	6	619	0	4	623	0
99	11	318	29	5	0	3	0	1	3	1	1	372	0	4	376	0
100	8	461	69	2	0	1	2	1	1	2	1	548	0	1	549	0
101	9	437	202	1	2	0	0	0	0	1	0	652	0	7	659	0
102	5	33	425	9	1	0	0	0	0	4	3	480	0	9	489	0
103	11	343	209	4	0	1	0	5	3	2	1	579	0	2	581	0
104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	4	95	315	2	0	0	0	4	0	0	0	420	0	0	420	0

M

131	1	30	309	4	1	0	1	1	1	0	0	348	0	0	348	0
132	4	38	547	3	0	1	0	0	0	0	1	594	0	1	595	0
133	9	72	407	7	1	1	0	0	2	4	1	504	0	3	507	0
134	6	304	174	4	1	2	2	0	1	1	3	498	0	2	500	0
135	2	358	200	5	0	1	0	0	2	3	0	571	0	5	576	0
136	11	40	416	3	1	0	0	0	2	1	1	475	0	2	477	0
137	4	63	574	6	0	0	0	1	0	3	8	659	0	0	659	0
138	2	36	471	6	0	0	0	0	1	3	0	519	0	1	520	0
139	4	31	375	4	1	1	0	0	4	2	3	425	0	1	426	0
140	3	171	173	1	0	0	0	3	0	0	0	351	0	2	353	0
141	5	147	314	8	0	1	1	0	0	1	0	477	0	1	478	0
142	5	152	578	0	0	0	1	0	3	5	2	746	0	7	753	0
143	6	203	449	6	0	0	3	6	0	2	1	676	0	0	676	0
144	4	169	279	1	1	2	1	0	2	2	1	462	0	13	475	0
145	8	132	382	10	2	1	0	2	1	4	3	545	0	3	548	0
146	1	144	217	2	0	0	1	1	0	2	0	368	0	4	372	0
147	3	19	779	8	1	0	1	3	1	3	2	820	0	4	824	0
148	8	29	503	8	0	0	0	0	1	2	1	552	0	6	558	0
149	7	63	654	4	1	0	0	2	0	7	0	738	0	3	741	0
150	2	48	525	4	1	0	0	0	1	1	0	582	0	0	582	0
151	1	278	239	0	1	0	0	0	2	0	0	521	0	1	522	0
152	5	280	228	3	0	1	0	2	0	0	1	520	0	1	521	0
153	6	86	310	8	1	0	0	10	1	2	0	424	0	4	428	0
154	1	46	753	10	3	0	2	1	0	2	1	819	0	5	824	0
155	6	344	39	2	1	0	0	0	2	1	2	397	0	2	399	0

M

181	4	143	291	7	0	0	0	0	0	0	0	445	0	4	449	0
182	6	305	154	4	0	0	0	0	0	0	0	469	0	1	470	0
183	6	87	729	10	2	0	1	0	3	1	7	846	0	0	846	0
184	4	50	474	4	0	0	0	2	4	1	1	540	0	3	543	0
185	6	88	872	4	2	0	1	0	3	2	0	978	0	3	981	0
186	2	40	280	2	0	0	0	2	0	1	0	327	0	5	332	0
187	4	445	105	4	1	0	0	0	0	2	1	562	0	2	564	0
188	4	252	201	4	0	2	0	0	2	0	1	466	0	5	471	0
189	3	449	91	4	1	0	0	1	2	0	2	553	0	3	556	0
190	11	489	54	5	1	0	1	2	0	4	7	574	0	9	583	0
191	9	502	68	2	3	1	0	0	5	6	1	597	0	14	611	0
192	10	199	332	9	1	0	1	3	4	1	1	561	0	2	563	0
193	3	447	130	3	1	2	1	1	3	4	4	599	0	3	602	0
194	11	105	224	0	0	0	1	0	0	0	1	342	0	1	343	0
195	7	281	94	6	0	1	0	0	0	0	2	391	0	2	393	0
196	9	131	684	8	0	0	0	2	3	0	0	837	0	4	841	0
197	12	100	307	6	0	1	1	2	4	3	0	436	0	2	438	0
198	4	353	134	7	2	2	3	1	2	2	1	511	0	5	516	0
199	4	205	334	6	2	1	0	0	0	2	0	554	0	2	556	0
200	3	126	488	6	1	0	0	0	0	2	3	629	0	1	630	0
201	5	42	554	2	0	0	0	1	0	4	1	609	0	1	610	0
202	3	457	125	5	1	1	0	0	2	0	3	597	0	3	600	0
203	9	54	543	3	2	0	2	3	2	2	1	621	0	0	621	0
204	5	72	418	6	2	0	1	0	0	0	0	504	0	0	504	0
205	10	74	560	7	1	0	1	5	1	0	1	660	0	1	661	0

h

231	7	12	681	4	0	0	0	0	2	1	1	708	0	1	709	0
232	1	514	23	0	0	0	1	1	2	1	6	549	0	5	554	0
233	8	280	468	5	1	1	2	1	1	1	0	768	0	2	770	0
234	4	63	373	5	1	2	0	2	0	0	4	454	0	0	454	0
235	3	539	130	3	0	0	3	1	2	2	2	685	0	2	687	0
236	4	309	67	2	0	0	0	0	0	0	3	385	0	1	386	0
237	6	111	265	3	0	0	0	0	1	2	1	389	0	2	391	0
238	6	40	552	12	2	0	1	2	2	0	27	644	0	7	651	0
Total No. of votes recorded at Polling Stations	1804	47415	75875	1049	176	135	142	373	324	386	425	128104	0	833	128937	0
No. of votes recorded on postal ballot papers (To be filled in the case of election from an Assembly constituency)																
Total Votes polled	1804	47415	75875	1049	176	135	142	373	324	386	425	128104	0	833	128937	0

Place- Govt PG College , TONK
Date- 4th June, 2024

Assistant Returning Officer

(अशुल सिंह)

सहायक रिटर्निंग अधिकारी
(एस.डी.एम.) बामनवास

Returning Officer

(डॉ. सोम्या झा)
रिटर्निंग ऑफिसर

लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र
टोंक-सवाईमाधोपुर (12)